

Date: November 08, 2023

1. **The Manager- Listing**
National Stock Exchange of India Limited
(Scrip Code: NAUKRI)
2. **The Manager- Listing**
BSE Limited
(Scrip Code: 532777)

Sub: Intimation of Publication of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2023

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2023 published in the following editions:

- Financial Express (National Daily newspaper) on November 08, 2023
- Jansatta (Daily newspaper of the State) on November 08, 2023

Submitted for your information & records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For **Info Edge (India) Ltd.**

Chintan Thakkar
Whole-time Director & CFO

FOCUS ON RENEWABLE ENERGY

HPCL lays out ₹75,000-cr capex plan for five years

Also plans to nearly double capacity of Vizag refinery

ARUNIMA BHARADWAJ
New Delhi, November 7

IN THE PIPELINE

HPCL plans to spend 25-30% of its capex on the renewable or gas-based segment



Its RE sector expansion would primarily focus in the solar and hybrid models segment

HPCL also plans to expand its refinery in Vishakhapatnam, while its Rajasthan refinery is expected to be completed by March next year

STATE-OWNED HINDUSTAN PETROLEUM Corporation Ltd (HPCL) plans to spend ₹75,000 crore in expansion and diversification in the next five years, with an annual expenditure of around ₹14,000-₹15,000 crore, the company said on Tuesday. "Around 25-30% of the capex will be for the renewable or gas-based segment, refinery would take another 20% and balance would be for other downstream marketing projects," said Rajneesh Narang, company's director of finance. The company will focus on enhancing renewable energy portfolio, gas business, and value-added products in the downstream segment in the next five years. The company's RE sector expansion would pri-

marily focus in the solar and hybrid models segment. Further, HPCL is planning to expand its refinery in Vishakhapatnam, intending to reach 15 million tonne per annum capacity from the current 8.3 MTPA. Additionally, the refinery expansion in Rajasthan is expected to be completed by March next year and will start production in the next calendar year, the company said. "About 74% of the physical completion of the Rajasthan

refinery has been done with a capex of ₹37,000 crore of the total ₹73,000 crore outlay." Once the bottom upgradation of the company's Vizag unit is completed, HPCL expects an incremental gross refining margin of \$3-\$4 per barrel. As of September end, the company had 23 days of crude inventory and 30 days of marketing inventory remaining, it said. Talking about the implementation of the common carrier regulation, the company

informed analysts and investors that there has been no official communication in this regard, and it does not see it hampering HPCL's pipeline business. Considering the uncertainty in the global crude oil market and changes in India's crude sourcing, the company does not see itself going for any material change in its sourcing of crude oil but plans to remain vigilant on crude, which will add more value to its business. "We will continue to look at opportunity crude."

The company on Monday reported a consolidated net profit of ₹5,826.96 crore in the quarter ended September, against a loss of ₹2,475.69 crore in the same quarter last financial year due to improved marketing margins. Average Gross Refining Margin (GRM) for the period of April to September was \$10.49 per barrel, as against \$12.62 per barrel during the corresponding previous period, the company said in an exchange filing.

IndiGo: 35 aircraft to be grounded due to 'powder metal' flaws

FE BUREAU
New Delhi, November 7

INDIGO ON TUESDAY said that based on its preliminary assessment and information received from Pratt & Whitney on the engine powder metal issue, it expects 35 aircraft to be grounded in the January-March quarter of the current fiscal. The 35 aircraft on ground (AOG) expected from January will be in addition to the planes the carrier has grounded due to supply chain issues at the moment, the airline said in a statement.

IndiGo currently operates 176 A320neo as part of its fleet of 334 aircraft and currently has over 40 aircraft grounded due to P&W engine issues. The parent company of Pratt & Whitney, RTX Corp, had announced in September that it would be increasing the scope of recent engine inspections. The problem, which the company first disclosed in July, stems from defects with powder metal used to make some of the popular Pratt & Whitney geared turbofan engines, a flaw that can cause cracks. RTX said that about 600 to 700 engines beyond the company's early forecast will have to be removed for shop visits

COMING TO A HALT

IndiGo expects 35 aircraft to be grounded in the January-March quarter of the current fiscal

This will be in addition to the planes the carrier has grounded due to supply chain issues

The problem was first disclosed in July. It stems from defects with powder metal used in turbofan engines, a flaw that can cause cracks

Over 40 aircraft are grounded due to P&W engine flaws



through 2026. The Pratt & Whitney turbine engine used on new Airbus A320neo models has been manufactured with flawed components. This will ground hundreds of aircraft and affect nearly the entire fleet of GTF-powered Airbus A320neos. The company estimated an average of 350 Airbus A320 family planes per year will be grounded from next year through 2026. The airline said it expects the issue to cost up to \$7 billion. Gaurav Negi, CFO, IndiGo, had earlier said that the carrier will see a higher number of aircraft being grounded due to engine issues from January 2024. So far, IndiGo has taken a number of steps to mitigate the

impact of grounded planes due to the powder metal issues, the company said. "We are in constant touch with the OEM to navigate through these challenges. Further, to deliver on our planned capacity and to cater to the robust demand, we are executing a range of mitigation measures. In this direction, we started to take action months ago," the company had earlier said. So far IndiGo has retained 14 Airbus Neos as part of its fleet, extended and re-inducted 36 aircraft, executed damp leases of 2 widebodies flying to Istanbul, and executed damp leases of 11 additional aircraft which will be starting operations from November.

Air India gets DGCA notice

ROHIT VAID
New Delhi, November 7

THE DIRECTORATE GENERAL of Civil Aviation (DGCA) on Tuesday said that it has served a show cause notice to the Tata Group-promoted Air India on non-compliance of provisions for providing facilities to passengers in case of denied boarding, as well as flight cancellations or delays. Notably, last year, the airline had been fined ₹10 lakh for non-compliance with similar provisions. "During the inspections of the airlines, it was observed that Air India was not complying with the provisions of the relevant CAR," DGCA said.

Vistara starts three-day festive sale

FULL-SERVICE CARRIER Vistara commenced a three-day sale across its domestic network for travellers on Tuesday, offering discounted fares in all three cabin classes. The airline is offering one-way, all-inclusive domestic fares starting from ₹1,999 for economy, ₹2,799 for premium economy, and ₹10,999 for business class.

— FE BUREAU


Arvind Fashions Q2 profit up 17%, stock rises 8.9%

VIVEAT SUSAN PINTO
Mumbai, November 7

APPAREL AND LIFESTYLE major Arvind Fashions on Tuesday reported a nearly 17% year-on-year (y-o-y) rise in its September quarter profit, aided by healthy sales of clothing and footwear as well as power brands, which helped it maintain wider margins. The Bengaluru-based company's consolidated net profit rose to ₹22 crore for the second quarter (Q2) of FY24 from ₹19 crore reported a year earlier, sending shares up as much as 8.59% on the BSE to ₹366.70 apiece. While consumer demand remained soft in Q2, Arvind Fashions' strong performance

REPORT CARD

Arvind Fashions consolidated financials



in the multi-brand outlet channel and tighter control over inventories resulted in

higher profit, the company said after announcing its results.

Zepto raises another \$31.25 mn

RECENTLY-TURNED UNICORN Zepto raised an additional sum of \$31.25 million in a Series E round of funding, with participation from Goodwater Capital, Nexus Venture Partners, and angel investors Oliver and Lish Jung, and Mangum II LLC, according to the company's filings with Singapore's Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA).

A company spokesperson confirmed the development. This funding comes just a few days after the 10-minute quick delivery platform posted a 14-fold growth in revenue in FY23, reaching ₹12,024 crore compared to ₹142.4 crore in FY22.

— FE BUREAU

Enfield opens new Himalayan bookings

Launch likely on November 24

VIKRAM CHAUDHARY
New Delhi, November 7

ROYALENFIELD HAS initiated pre-launch bookings for the all-new Himalayan. The motorcycle was unveiled on Tuesday at the EICMA Motor Show in Milan, Italy, and is expected to be launched in India on November 24, at the Motoverse in Goa – the company's flagship biking event – followed by Europe and the Asia Pacific.



Royal Enfield showcased its first electric concept motorcycle called the Electric Himalayan Testbed

The Himalayan was first launched in 2016. The new Himalayan is powered by the

Sherpa 450, Royal Enfield's first liquid-cooled engine (in contrast to the previous

Himalayan's 411-cc air/oil-cooled engine). It produces significantly more power and torque, with 40 bhp and 40 Nm, compared to the older bike's 24 bhp and 32 Nm. Siddhartha Lal, MD, Eicher Motors, said that the company's deep connection with the Himalayas—enthusiasts have been riding Royal Enfield's regular bikes to the Himalayas for 60 years—led to the development of the first Himalayan in 2016. At the EICMA, the company also showcased its first electric concept motorcycle called the Electric Himalayan Testbed.

INFO EDGE (INDIA) LIMITED Regd. Office : Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no. : 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website : www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023												
Particulars	Results on Standalone Basis						Results on Consolidated Basis					
	3 months ended 30/09/2023	Preceding 3 months ended 30/06/2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/09/2022	6 months ended 30/09/2023	6 months ended 30/09/2022	Year ended 31/03/2023	3 months ended 30/09/2023	Preceding 3 months ended 30/06/2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/09/2022	6 months ended 30/09/2023	6 months ended 30/09/2022	Year ended 31/03/2023
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1. Total Income from operations (net)	5,930.15	5,842.91	5,318.23	11,773.06	10,394.82	21,586.19	6,258.48	6,259.47	6,041.25	12,517.95	11,513.90	23,456.91
2. Net profit for the period/year (before tax, exceptional items)	2,824.20	2,666.94	2,224.74	5,491.14	4,166.26	9,106.79	2,623.49	2,167.05	1,486.74	4,790.54	4,881.23	6,498.64
3. Net profit for the period/year before tax (after exceptional items)	2,774.20	2,666.94	2,224.74	5,441.14	4,166.26	6,159.34	3,084.50	2,167.05	1,486.74	5,251.55	4,881.23	1,406.12
4. Net Profit/(loss) for the period/year after tax	2,087.07	1,999.03	1,680.96	4,086.10	3,165.22	4,111.93	2,397.42	1,474.06	939.02	3,871.48	3,863.33	(704.59)
5. Total Comprehensive income/(loss) for the period/year (comprising profit/(loss) for the period/year (after tax) & other comprehensive income/(loss) (after tax))	30,395.68	27,465.73	10,924.39	57,861.41	(17,308.75)	(29,322.07)	33,993.57	30,019.04	4,707.48	64,012.61	(28,712.24)	(36,856.33)
6. Equity Share Capital	1,291.84	1,291.84	1,289.84	1,291.84	1,289.84	1,291.84	1,291.84	1,291.84	1,289.84	1,291.84	1,289.84	1,291.84
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year						107,974.70						132,690.12
Earning per share (of ₹ 10 each) (not annualised)												
(a) Basic - Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	16.17	15.49	13.05	31.66	24.59	31.91	15.89	12.29	8.00	28.18	21.90	(8.34)
(a) Basic - Profit/(loss) after tax (before exceptional items)	16.56	15.49	13.05	32.04	24.59	54.78	12.32	12.29	8.00	24.61	21.90	31.18
(b) Diluted - Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	16.12	15.44	12.98	31.55	24.45	31.81	15.84	12.25	7.96	28.09	21.78	(8.34)
(b) Diluted - Profit/(loss) after tax (before exceptional items)	16.50	15.44	12.98	31.94	24.45	54.61	12.28	12.25	7.96	24.53	21.78	31.08

Note :
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).
 2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Place : Noida
 Date : November 07, 2023

Hitesh Oberoi
 Managing Director
 DIN : 01189953

सावधानक सूचना

एनटीआर सूचना दी जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने पत्र दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 (पत्र सं. पी. डि. नई दिल्ली सं. एए46/05.08.000/2023-24) के माध्यम से अनुमोदन और 10 अक्टूबर, 2023 को पारित बोर्ड संकल्प के अनुसार प्रबंधन की कार्यवाही को प्रभावी करने के उद्देश्य से एनटीआर सूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 को जारी की गई थी। एनटीआर सूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 को जारी की गई थी।

विनायक पोलिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 312, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006 (राज.) इंडिया। फोन : 0141-2377007
फैक्स : 0141-2378830, ई-मेल : investor@vinayakpolycon.com, वेबसाइट : www.vinayakpolycon.com
CIN : L25209RJ2009PLC030620 (रु. लाखों में राशि)

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही/अर्द्धवार्षिक के लिए स्टैंडअलोन और अंशित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30-09-2023		समाप्त अर्द्धवार्षिक वर्ष 30-09-2023		समाप्त तिमाही 30-09-2022	
		रु. अंशित	रु. अंशित	रु. अंशित	रु. अंशित	रु. अंशित	रु. अंशित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	568.22	1055.27	584.93			
2.	कर के पहले की अवधि के लिए असाधारण और असाधारण वस्तुओं से शुद्ध लाभ/(हानि)	7.07	11.53	3.63			
3.	कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से बाद)	7.07	11.53	3.63			
4.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से बाद)	5.81	9.11	3.21			
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिए लाभ/हानि	5.81	9.11	3.21			
6.	समतल अंश पूजा	308.13	308.13	308.13			
7.	रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पर के अनुसार पुनर्मुल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)	-	-	-			
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (संशालन जारी रखने और बंद करने के लिए)	0.19	0.30	0.10			
	1. मूल	0.19	0.30	0.10			
	2. तसल	0.19	0.30	0.10			

टिप्पणी : (1) इस स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित Ind AS 34 अंतर्गत वित्तीय परिणामों के रूप में इंडस्ट्री में निर्धारित मान्यताओं और पाप रिट्रोलों के अनुसार तैयार किए गए हैं, इसके तहत जारी प्रारंभिक विवरणों के साथ पूर्व (2) उद्योग विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टैंडअलोन प्रारूप का है। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही/ अर्द्धवार्षिक वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश (रु. लाखों में) (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.vinayakpolycon.com) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ता/—
दिनांक : 07 नवंबर, 2023 विचारक (पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

smc
moneywise. be wise.

SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED
CIN : L74899DL1994PLC063609
Regd. Office: 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005
Phone No : 011-30111000 | email : smc@smcindiaonline.com | website : www.smcindiaonline.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2023

(₹ IN LAKHS)

Sr. No.	PARTICULARS	CONSOLIDATED					
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	
		September 30, 2023 (Unaudited)	June 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	September 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
1.	Total Income from operations	38,946.49	31,146.56	30,038.96	70,093.05	58,988.98	121,157.33
2.	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	5,199.13	3,994.75	4,057.31	9,193.88	8,996.94	16,195.66
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)	5,199.13	3,994.75	4,057.31	9,193.88	8,996.94	16,195.66
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)	3,988.37	3,012.74	2,951.25	7,001.11	6,651.62	12,039.62
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4,079.67	3,017.86	3,163.19	7,097.53	7,065.22	12,542.50
6.	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 2 each)	2,094.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00
7.	Reserves						91,179.45
8.	Earnings per share (EPS) (in ₹)						
	Basic & Diluted EPS	3.81	2.88	2.79	6.69	6.08	11.25

* Restated refer note no. 2.

Notes:

- The above unaudited results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on Tuesday, the 07th November, 2023. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the results and issued an unqualified report.
- The above is the extract of the detailed format of quarterly and half year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly and half year ended financial results are available on the Investor Corner Section of our website www.smcindiaonline.com.
- The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.
- Additional information on standalone financial results is as follows :

(₹ IN LAKHS)

PARTICULARS	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	September 30, 2023 (Unaudited)	June 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	September 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)
	September 30, 2023 (Unaudited)	June 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	September 30, 2023 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
Income from operations	20,651.69	18,067.00	17,876.72	38,718.69	34,689.97
Profit before tax	3,627.65	4,552.91	3,081.41	8,180.56	7,546.72
Profit after tax	2,786.14	3,916.84	2,323.73	6,702.98	5,900.97

For and on behalf of the Board

sd/-
S. C. AGGARWAL
(Chairman & Managing Director)
(DIN : 00003267)

sd/-
MAHESH C. GUPTA
(Vice Chairman & Managing Director)
(DIN : 00003082)

sd/-
VINOD KUMAR JAMAR
(President & Group CFO)

Place : New Delhi
Date : November 7, 2023

लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट
कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली- 110 001
सीआईएन : एल13100डीएल1976पीएलसी188942, दूरभाष : (011) 43621200, फैक्स : (011) 41501333
ईमेल : info@landmarkproperty.in, वेबसाइट : www.landmarkproperty.in

30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त अर्द्धवर्ष		
		30 सित. 2023	30 जून 2023	30 सित. 2022	30 सित. 2023	30 सित. 2022	31 मार्च 2023
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1.	कुल आय	39.69	55.84	22.06	95.53	43.37	66.87
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर एवं आपदादिक मदों से पूर्व)	8.56	24.58	(22.43)	33.14	(27.67)	(739.17)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपदादिक मदों के उपरांत)	8.56	24.58	(22.43)	33.14	(27.67)	(739.17)
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपदादिक मदों के उपरांत)	7.89	18.48	(16.54)	26.37	(21.67)	(654.08)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	7.89	18.48	(16.54)	26.37	(21.67)	(654.16)
6.	समतल अंश पूजा (अंकित मूल्य रु. 1/- प्रत्येक का)	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43
7.	आरक्षितियां (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित छोड़कर)	-	-	-	-	-	4,199.35
8.	आय प्रति अंश (रु. 1/- प्रत्येक का अंकित मूल्य) (अवधि/अर्द्धवर्ष के लिए)	0.006	0.01	(0.01)	0.02	(0.02)	(0.49)
	(क) मूल (रु. में)	0.006	0.01	(0.01)	0.02	(0.02)	(0.49)
	(ख) तरलीकृत (रु. में)	0.006	0.01	(0.01)	0.02	(0.02)	(0.49)

टिप्पणी : यहां दिनांक 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान कोई भी आपदादिक मद नहीं थी। उपरोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टैंडअलोन प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टैंडअलोन प्रारूप की वेबसाइटों (www.nseindia.com तथा www.bseindia.com) पर एवं कंपनी की वेबसाइट (www.landmarkproperty.in) पर उपलब्ध है।

कृपे लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
हस्ता/—
गौरव डालमिया
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07-11-2023

INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Regd. Office : Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019
CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no. : 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website : www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

Amount in ₹ (Mn)

Particulars	Results on Standalone Basis						Results on Consolidated Basis					
	3 months ended 30/09/2023	Preceding 3 months ended 30/06/2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/09/2022	6 months ended 30/09/2023	6 months ended 30/09/2022	Year ended 31/03/2023	3 months ended 30/09/2023	Preceding 3 months ended 30/06/2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/09/2022	6 months ended 30/09/2023	6 months ended 30/09/2022	Year ended 31/03/2023
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1. Total Income from operations (net)	5,930.15	5,842.91	5,318.23	11,773.06	10,394.82	21,586.19	6,258.48	6,259.47	6,041.25	12,517.95	11,513.90	23,456.91
2. Net profit for the period/year (before tax, exceptional items)	2,824.20	2,666.94	2,224.74	5,491.14	4,166.26	9,106.79	2,623.49	2,167.05	1,486.74	4,790.54	4,881.23	6,498.64
3. Net profit for the period/year before tax (after exceptional items)	2,774.20	2,666.94	2,224.74	5,441.14	4,166.26	6,159.34	3,084.50	2,167.05	1,486.74	5,251.55	4,881.23	1,406.12
4. Net Profit/(loss) for the period/year after tax	2,087.07	1,999.03	1,680.96	4,086.10	3,165.22	4,111.93	2,397.42	1,474.06	939.02	3,871.48	3,863.33	(704.59)
5. Total Comprehensive income/(loss) for the period/year (comprising profit/(loss) for the period/year (after tax) & other comprehensive income/(loss) (after tax))	30,395.68	27,465.73	10,924.39	57,861.41	(17,308.75)	(29,322.07)	33,993.57	30,019.04	4,707.48	64,012.61	(28,712.24)	(36,856.33)
6. Equity Share Capital	1,291.84	1,291.84	1,289.84	1,291.84	1,289.84	1,291.84	1,291.84	1,291.84	1,289.84	1,291.84	1,289.84	1,291.84
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year						107,974.70						132,690.12
Earning per share (of ₹ 10 each) (not annualised)												
(a) Basic - Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	16.17	15.49	13.05	31.66	24.59	31.91	15.89	12.29	8.00	28.18	21.90	(8.34)
(a) Basic - Profit/(loss)after tax (before exceptional items)	16.56	15.49	13.05	32.04	24.59	54.78	12.32	12.29	8.00	24.61	21.90	31.18
(b) Diluted - Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	16.12	15.44	12.98	31.55	24.45	31.81	15.84	12.25	7.96	28.09	21.78	(8.34)
(b) Diluted - Profit/(loss) after tax (before exceptional items)	16.50	15.44	12.98	31.94	24.45	54.61	12.28	12.25	7.96	24.53	21.78	31.08

Note :
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).
2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Place : Noida
Date : November 07, 2023

Hitesh Oberoi
Managing Director
DIN : 01189953